



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 765) पटना, बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर 2014

सं0-3ए-1-मुक0-106/2014-8630-वि0

वित्त विभाग

संकल्प

17 सितम्बर 2014

विषय:- उत्पाद सिपाही के लिए दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान पी0बी0-1+1900/- ग्रेड-पे को संशोधित कर वेतनमान पी0बी0-1+2000/- ग्रेड-पे की स्वीकृति के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर उत्पाद सिपाही के लिए दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से वेतनमान 3050-4590/- की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इस पद पर नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण रखी गयी थी ।

2. वर्तमान में वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा उत्पाद आरक्षी कोटि (मूल) के लिए पी0बी0-1+1900/- ग्रेड-पे तथा 10+2 की शैक्षणिक योग्यता उत्क्रमित किए जाने पर पी0बी0-1+2000/- का वेतनमान स्वीकृत किया गया है ।

3. उत्पाद सिपाही संवर्ग के लिए वेतनादि की स्वीकृति सामान्य आरक्षी बल के अनुरूप स्वीकृत किये जाने का सामान्य निर्णय है ।

4. उत्पाद सिपाही संवर्ग की सेवाशर्त नियमावली 21/02/2014 के प्रभाव से अधिसूचित है । इस नियमावली के अनुसार मूल कोटि उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता 10+2 निर्धारित की गयी है ।

5. वर्तमान में सामान्य पुलिस बल के अनुरूप वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में शैक्षणिक योग्यता 10+2 हो जाने के उपरान्त पी0बी0-1+1900/- को पी0बी0-1+2000/- के रूप में संशोधित किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

6. सम्यक् विचारोपरान्त उत्पाद सिपाही संवर्ग के वेतनमान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:-

(i) उत्पाद सिपाही के पद पर नई नियुक्ति के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता (10+2) का प्रावधान करते हुए संवर्ग नियमावली अधिसूचित होने के माह से उत्पाद आरक्षी कोटि के लिए पी0बी0-1+2000/- रु0, हवलदार कोटि के लिए पी0बी0-1+2400/- एवं ए0एस0आई0 कोटि के लिए पी0बी0-1+2800/- का ग्रेड-पे अनुमान्य होगा ।

(ii) उक्त नियमावली के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त उत्पाद सिपाही कर्मियों, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/नन मैट्रिक है, को भी पी0बी0-1+2000/- का ग्रेड-पे अनुमान्य होगा ।

(iii) ऐसे उत्पाद सिपाही जिन्हें हवलदार के पद पर एवं हवलदार से ए0एस0आई0 के पद पर प्रोन्नति दी जा चुकी है अथवा वर्तमान में दी जानी है, उन्हें भी क्रमशः पी0बी0-1+2400/- एवं पी0बी0-1+2800/- का ग्रेड-पे अनुमान्य होगा ।

(iv) चूँकि इन कर्मियों का दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण हो चुका है। अतः इस आदेश के फलस्वरूप देय अतिरिक्त ग्रेड-पे को जोड़कर नियमावली अधिसूचित होने के माह से, अतिरिक्त वेतन और महंगाई भत्ता अनुमान्य होगा ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रभात शंकर,

सरकार के विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 765-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>